



ESTD.: 1996

SURE SUCCESS CENTRE

Centre for Competitive Exams

Radha Kshetra, HARA-DHAM, Beside Jagannath Tower, Circular Road, Lalpur, Ranchi
(Jharkhand) - 834001
Phone: 9835164787 / 8877882477

RAILWAY TEST

1. एक रेलगाड़ी 160 किमी/घण्टे की गति से चल रही है और इसकी लम्बाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खम्भे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें—
 - 1) 4.05 सेकण्ड
 - 2) 5 सेकण्ड
 - 3) 8.2 सेकण्ड
 - 4) 10 सेकण्ड
2. बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था?
 - 1) 1999
 - 2) 1989
 - 3) 1982
 - 4) 2000
3. निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे?
 - 1) ओलिवर गोल्डस्मिथ
 - 2) नील्स बोहर
 - 3) सिगमंड फ्रॉयड
 - 4) आइजैक न्यूटन
4. कौनसी नदी कर्नाटक और तमिलनाडू में बहती है?
 - 1) कृष्णा
 - 2) गोदावरी
 - 3) कावेरी
 - 4) पेरियार

निर्देश (प्रश्न 5 से 7 तक) नीचे दी गई तालिका का सन्दर्भ लेकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—
पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी है।

क्षेत्र	पंजाब	प. बंगाल	केरल	कुल
गायन	60	46	74	180
नृत्य	90	74	120	284
अभिनय	40	20	36	96

5. पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है?
 - 1) पंजाब
 - 2) पश्चिम बंगाल
 - 3) केरल
 - 4) कोई नहीं
6. पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी हैं?
 - 1) 328
 - 2) 280
 - 3) 364
 - 4) 428
7. महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है?
 - 1) 186
 - 2) 271
 - 3) 232
 - 4) 290
8. बैंकिंग सोडा क्या है?
 - 1) पोटैशियम परमैग्नेट
 - 2) सोडियम क्लोराइड
 - 3) सोडियम बाइकार्बोनेट
 - 4) सोडियम कार्बोनेट
9. एक दुकानदार दो कुर्सियाँ ₹ 462 में बेचता है। एक पर वह 12 प्रतिशत का लाभ कमता है और दूसरी पर 12 प्रतिशत की हानि निम्नलिखित में से कौनसा सही है?
 - 1) उसे ₹ 110 का लाभ होता है
 - 2) उसे ₹ 6.75 का लाभ होता है

- 3) उसे ₹ लाभ होता न हानि
- 4) उसे ₹ 6.75 की हानि होती है
10. एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिन्दु से मीनार की छोटी का उन्नयन कोण 60° है। मीनार की ऊँचाई का पता लगाएँ
- 30.6 मीटर
 - 34.6 मीटर
 - 36.4 मीटर
 - 36 मीटर
11. मालविकागिनिमित्रम (Malavikangimitram) किसने लिखा था?
- भास
 - कविराय
 - बाणभट्ट
 - कालिदास
12. एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा?
- 14 वर्ष
 - 15 वर्ष
 - 16 वर्ष
 - 18 वर्ष
13. कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था?
- राजस्थान
 - मणिपुर
 - असम
 - केरल
14. यदि $\frac{1}{m}$ है, तो m का मान ज्ञात करें
- 4
 - 6
 - 8
 - 2
15. निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुनें—
- Queen, Spade, Square, Diamond
- Queen
 - Spade
 - Square
 - Diamond
16. निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोष कौनसा है?
- वाक्यवृत्ति
 - शब्दकोष
 - अमरकोष
 - हर्षचरित
17. सबसे पहले पहिए किससे बने थे?
- रबर
 - काँच
 - लकड़ी
 - लोहा
18. यदि $GEM = NJZ$, तो $KID = ?$
- VRH
 - LOG
 - BOY
 - SKR
19. भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
- प्रधानमंत्री
 - लोक सभा के अध्यक्ष
 - मुख्य चुनाव आयुक्त
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश
20. यदि एक समानान्तर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें?
- 25 सेमी
 - 25 वर्ग सेमी
 - 12.5 सेमी
 - 12.5 वर्ग सेमी
21. यदि $\frac{1}{a}$ है, तो a का मान ज्ञात करें।
- 8
 - 4
 - 5
 - 9
22. दो नम्बरों का अनुपात $7 : 12$ है। यदि दोनों अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए। तो अनुपात $7 : 11$ हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें—
- 7
 - 28
 - 35
 - 12
23. नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं आपकों दिए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों फिर भी उन्हें सत्य मानना है—
- कथन — 1. कुछ डॉक्टर कारीगर हैं।
2. सभी कारीगर लम्बे हैं क
- निष्कर्ष— I. सभी डॉक्टर छोटे हैं।

II. कुछ कारीगर पुरुष हैं।

कूटः—

- 1) केवल निष्कर्ष I तर्कसंगत है
 - 2) केवल निष्कर्ष II तर्कसंगत हैं
 - 3) I और II दोनों तर्कसंगत हैं
 - 4) कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है
24. यदि P, Q के बेटे के बेटे का भाई है, तो P का Q से क्या सम्बन्ध है?
- 1) बेटा
 - 2) भतीजा
 - 3) पोता/नाती
 - 4) दादा—दादी/नाना—नानी
25. चन्द्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है?
- 1) सितारों पर
 - 2) ज्वालामुखी पर
 - 3) प्रकाश की गति पर
 - 4) वनस्पति जीवन पर
26. विद्यालय : प्रधानाचार्य, तो न्यायालय :
- 1) वकील
 - 2) न्यायाधीश
 - 3) अभियुक्त
 - 4) मुकदमा
27. 'लास्टस सफर' किसने चित्रित किया था?
- 1) माइकल एंजेलो
 - 2) लियोनार्डो दा विंसी
 - 3) पाब्लो पिकासो
 - 4) रेम्ब्रांट
28. एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट देता है। कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ?
- 1) 25 प्रतिशत लाभ
 - 2) 25 प्रतिशत हानि
 - 3) 20 प्रतिशत लाभ
 - 4) 6.25 प्रतिशत हानि
29. निम्नलिखित में से किससे ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ता है?
- 1) क्रिप्टन
 - 2) कार्बन डाइऑक्साइड
 - 3) नाइट्रोजन
 - 4) ऑक्सीजन
30. एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, "उसकी पुत्री मेरे ससुर की इकलौती पोती है। वह व्यक्ति किस प्रकार महिला से सम्बन्धित है?
- 1) पति
 - 2) पिता
 - 3) चाचा/मामा
 - 4) पुत्र
31. यदि $(a + b)^2 = 100$ और $a : b = 1 : 3$ है, तो ab ज्ञात करें—
- 1) 10
 - 2) 14.50
 - 3) 18.75
 - 4) 20.50
32. Mammal : Human, तो Flower :
- 1) Smell
 - 2) Living
 - 3) Bouquet
 - 4) Rose
33. यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमियों द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे?
- 1) 12
 - 2) 15
 - 3) 20
 - 4) 55
34. यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें, ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके।
- 1) 12
 - 2) 10
 - 3) 8
 - 4) 9
35. प्रश्चचिह्न (?) के स्थान पर कौनसा चिन्ह आना चाहिए?
- $$75 ? 8 ? 3 = 27$$
- 1) + ,
 - 2)
 - 3)
 - 4)
36. सरल करें—
- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
37. प्रकंद (Rhizome) का एक उदाहरण है।

- 1) गाजर 2) शकरकंद
 3) लहसुन 4) अदरक
38. एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है. इसमें नो बॉल वाइड या ओवरथ्रो शामिल नहीं है?
 1) 36 2) 34
 3) 35 4) 31
39. ग्राफीन (Graphene) क्या है?
 1) कार्बन का अपरूप 2) एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर
 3) एक पौराणिक जानवर 4) एक संक्रमित धाव
40. 22 सेमी की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें.
 1) 22 वर्ग सेमी 2) 11 वर्ग सेमी
 3) 44 वर्ग सेमी 4) 38.5 वर्ग सेमी
41. यदि $1 + 2 = 5$, $3 + 4 = 25$, तो $5 + 6$ क्या होगा?
 1) 11 2) 125
 3) 625 4) 61
42. Foot : Inch, तो Metre : ?
 1) Kilometre 2) Centimetre
 3) Length 4) Measure
43. किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रांड स्लैम खिताब जीते हैं?
 1) पीट सैम्प्रास 2) आंद्रे अगासी
 3) रोजर फेडरर 4) राफेल नडाल
44. सरल करें—
 1) a^2 2) a 3) $1/a$ 4) $1/a^2$
45. निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौनसा होगा?
 DQ, FS, HU, ?
 1) JW 2) JK 3) IW 4) BR
- निर्देश (प्रश्न 46 से 48 तक) निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए—
 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो-खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी और तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं.
46. कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते ?
 1) 4 2) 6 3) 3 4) 2
47. कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं?
 1) 2 2) 6 3) 8 4) 4
48. कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं?
 1) 18 2) 22 3) 20 4) 24
49. निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं?
 1) मकड़ी (Spider) 2) सहस्रपाद (Millipede)
 3) गोजर (Centipede) 4) व्याघ पतंग (Dragonfly)
50. ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है?
 1) यूकिलिड 2) पाइथागोरस
 3) रामानुजम 4) फिबोनाची
51. 'टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015' किसे घोषित किया गया था?
 1) एन्जेला मर्केल 2) व्लादिमीर पुतिन
 3) बराक ओबामा 4) डेविड कैमरून
52. यदि $x = +$, $y = -$, $z = -$ है, तो $3x4y2z9$ का मान ज्ञात करें.
 1) 12 2) 9 3) 7 4) 5
53. नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं. आपको दिए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों फिर भी उन्हें सत्य मानना है—
 कथन—
 1. सेब लाल है.

2. कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है
 निष्कर्ष I. सभी सेब सस्ते हैं.
 II. लाल सेब सस्ते नहीं हैं.

कूटः— 1) केवल निष्कर्ष I तर्कसंगत है
 2) केवल निष्कर्ष II तर्कसंगत है
 3) I और II दोनों तर्कसंगत हैं
 4) कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है

54. भीमबेटका की गुफाएँ कितने साल पुरानी मानी जाती हैं?
 1) 1000 साल 2) 5000 साल
 3) 30,000 साल 4) 300 साल

55. यदि का है, तो x ज्ञात करें.
 1) 12 2) 10
 3) 8 4) 15

56. स्वेज नहर (Suez Canal) भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है?
 1) कैस्पियन सागर 2) लाल सागर
 3) बाल्टिक सागर 4) उत्तरी सागर

57. निम्नलिखित भाषाओं में से कौनसी भाषा चित्राक्षरों (Ideographs) का उपयोग करती है?
 1) जापानी 2) इतालवी
 3) फ्रेंच 4) अंग्रेजी

58. यदि 'FIRE' को 69185, 'SNOW' को 19141523 लिखा जाए, तो 'RAIN' को क्या लिखा जाएगा?
 1) 81914 2) 18169
 3) 181914 4) 189114

59. युमारी क्या है?
 1) चिकिल्सा पद्धति की शाखा है 2) स्वाद का प्रकार है
 3) धातु का प्रकार है 4) एक बैंड समूह है

60. A एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है और B वही काम 30 दिन में समाप्त कर सकता है. यदि दोनों मिलकर काम करते हैं. तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा?
 1) 2) 70
 3) 4)

61. निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शता है. यदि 165 छात्र D खेल खेलते हैं. तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

खेल	विद्यालिखित (%)
वर्ग A	24%
वर्ग B	20%
वर्ग C	10%
वर्ग D	16%
वर्ग E	24%

1) 1100 2) 1650
 3) 3300 4) 1000

62. निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता है?
 1) ए. आर. रहमान 2) गुरुदत्त
 3) सत्यजीत राय 4) गुलजार

63. एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है. बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए थे. सही माध्य ज्ञात करें.
 1) 78.25 2) 60.25
 3) 72.70 4) 73.4

64. निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है?

- 1) न्यूट्रॉन
- 2) प्रोटॉन
- 3) इलेक्ट्रॉन
- 4) क्रिस्टल

निर्देश (प्रश्न 65 से 67 तक) निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

कुछ लड़के और लड़कियाँ एक पंक्ति में खड़े हैं।

पहली लड़की के बाद 1 लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियाँ हैं।

65. 21 वें और 30 वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियाँ हैं?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) कोई नहीं

66. कुल कितनी लड़कियाँ हैं?

- 1) 6
- 2) 7
- 3) 8
- 4) 9

67. 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं?

- 1) 12
- 2) 10
- 3) 8
- 4) 13

68. 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5 प्रतिशत वार्षित दर से चक्रवृद्धि ब्याज, समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से ₹ 10 ज्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें।

- 1) 5,000
- 2) 4,500
- 3) 4,000
- 4) 3,500

69. A ₹ 3480 की साइकिल बेचकर 20 प्रतिशत का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें।

- 1) ₹ 2784
- 2) ₹ 2900
- 3) ₹ 2874
- 4) ₹ 3122

70. नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों फिर भी उन्हें सत्य मानता है।

कथन:— 1. कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है।

2. कुछ शिक्षिकाएँ नृत्य कर सकती हैं।

निष्कर्ष— I. सभी शिक्षिकाएँ नृत्य कर सकती हैं।

II. कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है।

- 1) केवल निष्कर्ष I तर्कसंगत है
- 2) केवल निष्कर्ष II तर्कसंगत हैं
- 3) I और II दोनों तर्कसंगत हैं
- 4) कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं हैं

71. यदि '+' को " और '-' को " समझा जाए, तो $8 + 6 - 3$ का मान क्या होगा?

- 1) 11
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 14

72. सरल करें

- 1) 2)
- 3)
- 4)

73. एक सांकेतिक भाषा में ACCOUNT को NPPBHAG लिखा जाता हो, तो ONLINE को लिखा क्या जाएगा?

- 1) DISTIA
- 2) ZANRTG
- 3) BTODFK
- 4) BAYVAR

74. एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊँचाई तक पहुँचती है। सीढ़ी की लम्बाई का पता लगाएँ।

- 1) 13.75
- 2) 14.75
- 3) 15.75
- 4) 16.75

75. 2 संख्याओं का महत्वम् समापर्वतक HCF 24 है। इसका लघुतम् समावर्त्य LCM निम्नलिखित में से कौनसा हो सकता है?

- 1) 118
- 2) 144
- 3) 128
- 4) 136

76. यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा?

- 1) 19 किलो
- 2) 760 किलो
- 3) 10 किलो
- 4) 14.3 किलो

77. 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में भारत ने कितने पदक जीते थे?

- 1) 0
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 2

78. DPT वैक्सीन में 'P' किसे सन्दर्भित करता है?

- 1) सोरायसिस (Psoriasis)
- 2) पर्टुसिस (Pertussis)
- 3) पैंकोलाइटिस (Pancolitis)
- 4) पार्किंसन्स (Parkinson's)

79. A और B की आयु का अनुपात 1 : 2 है. 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 : 5 हो जाएगा. उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें।
 1) 14 और 28
 2) 6 और 12
 3) 15 और 30
 4) 10 और 20

80. यदि निम्नलिखित आँकड़ों का बहुलक 52 है. तो x का मान ज्ञात करें—
 52, 45, 49, 54, 56, 52, x- 3, 56
 1) 52
 2) 55
 3) 54
 4) 56

81. एक 250 मीटर लम्बी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खम्भे को 8 सेकण्ड में पार करती है. यदि यह एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकण्ड लेती है, तो प्लेटफार्म की लम्बाई कितनी है?
 1) 375 मीटर
 2) 625 मीटर
 3) 500 मीटर
 4) 675 मीटर

82. वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊँची इमारत कौनसी है?
 1) बुर्ज खलीफा
 2) पेट्रोनास
 3) वॉर्सों रेडियो भारत
 4) शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर

83. शब्द रडार (RADAR) किससे व्युत्पन्न है?
 1) Retro Diagnosis And Recognition
 2) Radio Detection and Resolution
 3) Rapid Detection And Reaction
 4) Radio Detection And Ranging

84. किस व्यक्ति ने ओलम्पिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं?
 1) मार्क स्पिट्ज
 2) माइकल फेल्प्स
 3) मैट बीआँडी
 4) माइकल स्मिथ

85. सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है?
 1) अपवर्तन
 2) परावर्तन
 3) प्रत्याकर्षण
 4) विकिरण

86. निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौनसी घटना भूकम्प का कारण बनती है?
 1) टिढ़ड़यों के हमले
 2) तूफान
 3) चंद्रग्रहण
 4) ज्वालामुखीय विस्फोट

87. एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है "उनके भाई के पिता मेरे दादा/नाना के एकलौते पुत्र है." महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है?
 1) माँ
 2) दादा/नानी
 3) बहन
 4) बेटी

88. निम्नलिखित में से कौनसी संख्या एक पूर्ण वर्ग है?
 1) 0.09
 2) 8.1
 3) 0.025
 4) सभी

89. प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्णरूप क्या है?
 1) Solid Pollution Matter
 2) Suspended Particulate Matter
 3) Soluble Particle Method
 4) Surrounding Pollution Matter

90. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
 1) ओम प्रकाश रावत
 2) डॉ. नसीम जैदी
 3) अचल कुमार ज्योति
 4) हरिशंकर ब्रह्मा

91. निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें—
 49, 63, 77, 119
 1) 63
 2) 49
 3) 119
 4) 77

92. निम्नलिखित में से कौनसी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है?
 1) प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)
 2) बायोडीग्रेडेशन (Biodegradation)
 3) विद्युत अपघटन (Electrolysis)
 4) गैल्वेनीकरण (Galvanization)

93. एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेमी और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेमी है. वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें.
 1) 20 सेमी
 2) 5 सेमी
 3) 8 सेमी
 4) 2 सेमी

94. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है?
 1) 61 वर्ष
 2) 63 वर्ष

3) 65 वर्ष

4) 68 वर्ष

95. यदि HAPPY = 66, SORROW = 108, तो LAUGH = ?

1) 72

2) 49

3) 87

4) 24

96. ABC एक साझेदारी कम्पनी में र 120.393 का मुनाफा अर्जित करते हैं जिसे A, B, C में 5 : 3 : 1 के अनुपात में बाँटा जाता है। B को कितना हिस्सा मिलेगा?

1) 40, 131

2) 13, 377

3) 23, 145

4) 43, 491

97. लेमूर (Lemur) क्या है?

1) मानव शरीर में एक हड्डी

2) कैंसर के विकास का एक प्रकर

3) एक साधारण मशीन

4) वानर कुल का प्राणी

98. निम्नलिखित शृंखला में अगली संख्या कौनसी होगी?

36, 100, 196, ?

1) 256

2) 288

3) 324

4) 356

99. टमाटर क्या है?

1) सब्जी

2) फल

3) फली

4) खाद्य तना

100. जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है?

1) चूहा

2) मच्छर

3) झींगुर

4) खरगोश

